



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण,

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

No. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 1970/अग्रहायण 19, 1892

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1970/AGRAHAYANA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi the 4th November 1970

No.F.3(66)-B/70.—The Annual Financial Statement for 1970-71 as presented to the Parliament on the 28th February, 1970 is now published in its final forms for general information.

2. As a result of modification in the Finance Bill, 1970, the Central Revenue will be reduced by Rs. 1,70,00,000 as detailed below:—

Union Excise Duties	(—) 1,65,00,000
Less States' share in the reduction of Union Excise Duties.	(—) 33,00,000
Taxes on Income other than Corporation Tax.	(—) 1,25,00,000
Less States' share in the reduction of Taxes on Income other than Corporation Tax.	(—) 87,00,000
Net reduction in Central Revenues	(—) 1,70,00,000

3. The Demands for Grants for 1970-71 were voted without modification.

4. The surplus on revenue account will thus stand at Rs. 137,80,71,000 and the overall deficit will stand at Rs. 226,94,00,000.

भारत सरकार

(वर्ष विभाग)

नयी दिल्ली, 4 नवम्बर 1970

संकल्प

संख्या एफ 3(66)बी/70.—28 फरवरी 1970 को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, 1970-71 का वार्षिक वित्तीय विवरण अब सामान्य जानकारी के लिए अन्तिम रूप में प्रकाशित किया गया है।

2. विस्त विधेयक, 1970 में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय राजस्व में 1,70,00,000 रुपये की कमी हो जायगी, जिसका व्यौरा इस प्रकार है:—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	(—) 1,65,00,000 रुपये
घटाइये—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में होने वाली कमी में राज्यों का हिस्सा	(—) 33,00,000 रुपये
निगम कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	(—) 1,25,00,000 रुपये
घटाइये—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी करों में होने वाली कमी में राज्यों का हिस्सा	(—) 87,00,000 रुपये
<hr/>	
केन्द्रीय राजस्व में होने वाली वास्तविक कमी	(—) 1,70,00,000 रुपये
<hr/>	

3. 1970-71 की अनुदानों की मांगें बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर ली गई थी।

4. इस प्रकार राजस्व खाते का अधिशेष 1,37,80,71,000 रुपये हो जायगा और कुल मिलाकर 226,94,00,000 रुपये का ऋण होगा।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



केन्द्रीय सरकार

का

1970-71

का

बजट

BUDGET
OF THE
CENTRAL GOVERNMENT
FOR
1970-71

(जैसा कि अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया)
(As Finally adopted)

वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1970
MINISTRY OF FINANCE,
New Delhi, the 4th November, 1970

पी० गोविन्दन नायर,
सचिव, भारत सरकार
P. GOVINDAN NAIR,
Secretary to the Government of India.

CONTENTS

	PAGES
I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का सामान्य विवरण	I.—General Statement of Receipts and Disbursements of the Central Government 1198—1225
II.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का विस्तृत विवरण	II.—Detailed Statement of Receipts and Disbursements of the Central Government 1226—1243

I—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND
RECEIPTS (हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	व्योरे के लिए विवरण देखिए	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधन अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1970-71
	For details <i>vide</i> Statement				
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व प्राप्तियाँ—	REVENUE RECEIPTS—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
	II				
सीमा-शुल्क	Customs	4,46,49,79	4,35,20,00	4,15,00,00	{ 4,45,00,00 +20,00,00*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	Union Excise Duties	13,20,67,10	14,97,75,00	15,25,76,00	{ 16,79,34,00 +1,33,41,00* —34,97,00@
निगम-कर	Corporation Tax	2,99,76,67	3,26,20,00	3,20,00,00	{ 3,42,00,00
निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	Taxes on Income other than Corporation Tax.	1,83,95,88	1,77,72,97	1,06,82,04	{ 83,83,02 +4,62,00*
मृत-सम्पत्ति-शुल्क	Estate Duty	1,19,88	39,38	51,78	{ 32,99
सम्पत्ति-कर	Taxes on Wealth	11,11,34	12,00,00	14,00,00	{ 18,00,00
व्यय-कर	Expenditure Tax	15	1,00	1,00	{ 83
दान-कर	Gift Tax	1,51,22	1,50,00	1,50,00	{ 1,50,00
अन्य शीर्षक	Other Heads	45,07,11	48,16,96	48,26,57	{ 50,62,40
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	23,09,79,14	24,98,95,31	24,31,87,39	{ 26,20,63,24 +1,23,06,00*
भाग ले जायी गयी रकम	Carried Over	23,09,79,14	24,98,95,31	24,31,87,39	{ 26,20,63,24 +1,23,06,00*

*वित्त अधिनियम 1970 का प्रभाव ।

*Effect of Finance Act, 1970

@केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा जो राजस्व में से घटा दिया गया है ।

@ Share of Union Excise Duties payable to States which has been taken in reduction of Revenue,

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
	क्यारे के लिए विवरण देखिए For details vide Statement	वस्तुविक भुगतान 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1970-71
I.—भारत की संयुक्त निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व से किया जाने वाला व्यय—	EXPENDITURE MET FROM REVENUE—				
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRIN- CIPAL REVENUES . II	38,69,56	44,59,52	43,93,34	48,54,61
ऋण-व्यवस्था	DEBT SERVICES . ,	5,28,01,92	5,68,81,85	5,68,56,21	5,97,48,36
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES ,	1,53,51,73	1,64,83,06	1,77,31,70	1,89,69,90
सांसाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOP- MENTAL SERVICES ,	2,34,22,95	2,72,32,57	2,66,53,07	3,19,85,00
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और विजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES] ,	2,14,33	4,38,91	5,88,49	14,55,73
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	9,56,60,49	10,54,95,91	10,62,22,81	11,70,13,60

I—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों

I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	व्योरे के लिये विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	For details vide Statement	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	II	23,09,79,14	24,98,95,31	24,31,87,39 { 26,20,63,24 + 1,23,06,00*
ऋण-स्वयन्ध्या	DEBT SERVICES	"	5,14,57,74	5,40,07,06	5,73,46,24 6,11,26,77
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES	"	10,24,73	9,79,45	10,36,38 10,33,33
सामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOP- MENTAL SERVICES	"	28,55,14	30,17,50	32,04,99 32,94,02
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और विजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	"	1,04,49	3,74,90	5,31,86 15,48,09
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधार की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	"	6,14,26	7,50,42	6,39,18 7,11,20
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COM- MUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	"	11,65,03	12,69,68	13,37,26 14,18,39
मुद्रा और टंकाल	CURRENCY AND MINT	"	85,43,63	94,93,36	94,83,91 98,07,23
विविध	MISCELLANEOUS	"	33,45,30	27,41,03	63,49,80 48,04,23
अंशदान और विविध समायोजन (रेलों तथा डाक और तार के अंशदानों से भिन्न)	CONTRIBUTIONS AND MIS- CELLANEOUS ADJUST- MENTS (OTHER THAN CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS AND P.&T.)	"	13,04,01	12,53,59	13,80,80 13,86,13
रेलों का अंशदान	CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS	"	28,36,19	30,26,99	29,17,09 28,70,16
डाक और तार का अंशदान	CONTRIBUTIONS FROM POSTS AND TELEGRAPHS	"	2,63,95	2,99,61	2,85,60 3,25,63
असाधारण मदें	EXTRAORDINARY ITEMS	"	39,13,09	27,60,02	9,98,70 16,40,02
जोड़—राजस्व प्राप्तियाँ	TOTAL—REVENUE RECEIPTS		30,84,06,70	32,98,68,92	32,86,99,20 { 35,20,37,44 + 1,23,06,00*
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	EXCESS OF EXPENDITURE OVER REVENUE OR DEFICIT		10,93,96 ..
जोड़	TOTAL		30,84,06,70	32,98,68,92	32,97,93,16 36,43,43,44

*वित्त अधिनियम, 1970 का प्रभाव ।

*Effect of Finance Act, 1970.

भारत भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

	ब्यौर के लिए विवरण खिए	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	सशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	For details vide Statement	Accounts 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate 1970-71	
I-भारत की समेकित निधि—						
आगे लायी गयी रकम	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— Brought Forward	II	9,56,60,49	10,54,95,91	10,62,22,81	11,70,13,60
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	„	34,04,60	37,93,35	38,68,38	42,62,81
परिवहन और संचार(सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMU- NICATIONS (OTHER THAN ROADS)	„	14,42,64	17,33,00	18,35,22	20,80,32
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT	„	24,31,00	26,43,72	26,86,34	26,00,07
विविध	MISCELLANEOUS	„	1,97,46,98	2,26,69,36	2,42,36,88	2,21,25,85
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MIS- CELLANEOUS ADJUSTMENTS	„	8,35,59,29	9,07,31,16	9,24,26,75	10,00,32,50
असाधारण मदें	EXTRAORDINARY ITEMS	„	11,60,67	5,88,61	5,84,43	6,63,58
रक्षा सेवाएं (क)	DEFENCE SERVICES(A)	„	9,29,05,48	9,85,78,00	9,79,32,35	10,17,84,00
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE	„	30,03,11,15	32,52,33,11	32,97,93,16	35,05,62,73
व्यय से राजस्व की अधिकता अर्थात् अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SUR- PLUS	„	80,95,55	36,35,81	..	{ 14,74,71 + 1,23,06,00*
जोड़	TOTAL	..	30,84,06,70	32,98,68,92	32,97,93,16	36,43,43,44

(क) शुद्ध धाँकड़े, प्राप्तियां व्यय में से घटा दी गयी हैं।

(A) Figures shown net; the receipts have been deducted.

वित्त अधिनियम, 1970 का प्रभाव।

*Effect of Finance Act, 1970.

—केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

	व्योरे के लिए विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	अंजु अनुमान 1970-71
	For details vide Statement	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I.—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व अधिशेष (जैसा कि पृष्ठ 5 पर दिखाया गया है)	REVENUE SURPLUS (As SHOWN IN PAGE 5)	80,95,55	36,35,81	..	1,37,80,71
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
स्थायी ऋण—	PERMANENT DEBT—				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India. "	3,96,15,49	5,00,25,00	6,15,59,00	4,70,35,00
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India .	6,53,82,99	8,50,00,04	7,14,10,00	7,19,00,00
प्रस्थायी ऋण—	FLOATING DEBT—				
राजकोष वृद्धिया (शुद्ध)	Treasury Bills (net).	2,34,93,03	2,53,00,00	1,54,00,00	2,26,00,00
अन्य प्रस्थायी ऋण (शुद्ध)	Other Floating Debt (net)	—2,51,70	1,48,00	1,47,75	1,47,75
ऋणों और प्रशियों का परिशोधन	REPAYMENT OF LOANS AND ADVANCES—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Terri- tory Governments "	5,85,10,99	5,40,00,00	6,40,00,00	6,00,00,00
अन्य ऋण और प्रशिम	Other Loans and Advances "	1,57,26,74	2,05,00,00	2,40,00,00	2,25,00,00
अन्तराज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLE- MENT "	18,32	..	9,85	..
बोड़-भारत की समेकित निधि—	TOTAL—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .	21,05,91,41	23,86,08,85	23,65,26,60	23,79,63,46

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

	ब्योरे के लिए विवरण देखिए	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	For details vide Statement	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—					
राजस्व की कमी (जो पृष्ठ 4 पर दिखाई गई है)	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— Revenue Deficit (as shown in Page 4)	10,93,96	..
राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत व्यय	CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE—				
सामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	II	2,44,18,45	3,40,86,10	3,47,75,67
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	"	25,68,82	58,25,48	60,12,62
सड़क-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	"	49,46,89	75,88,53	58,94,32
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	"	14,32,87	25,54,56	24,09,32
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY & MINT.	"	14,34,50	6,27,85	8,13,16
विविध	MISCELLANEOUS	"	1,72,43,42	28,22,95	12,80,96
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	DEFENCE CAPITAL OUTLAY	"	1,04,13,51	1,24,22,00	1,25,42,00
रेलों की पूंजी (जो रेलों के बजट में दिखायी गयी है)	RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET)	"	1,21,47,40	1,32,60,00	1,24,85,74
डाक और तार	POSTS AND TELEGRAPHS	"	26,71,63	34,16,41	35,95,70
जोड़—राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत व्यय	TOTAL—CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE		4,27,90,65	7,69,57,98	7,72,47,57
ऋण परिशोधन	REPAYMENT OF DEBT—				
स्थायी ऋण	PERMANENT DEBT—				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India		2,46,13,90	4,00,50,00	3,97,20,37
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India		1,76,38,68	2,07,60,31	1,79,54,32
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Territory Governments		9,15,27,11	7,93,74,23	10,57,97,35
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances	"	5,82,64,22	4,56,59,91	4,24,23,33
अन्तर्राष्ट्रीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	"	34,71
जोड़—I—भारत की समेकित निधि	TOTAL—I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA		23,48,69,27	26,28,02,43	28,42,36,90
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over				26,84,07,21

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
	भूरे के लिये विवरण देखिये For details vide Statement	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate 1970-71
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	21,05,91,41	23,86,08,85	23,65,26,60	23,79,63,46
II--भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA	II	58,69	..	2,96,05
III—सार्वजनिक खाता	III.—PUBLIC ACCOUNT—				
अनिवृत्त ऋण—	UNFUNDED DEBT—				
छोटी बचतें (शुद्ध) @	Small Savings (Net)@	1,13,70,56	1,35,25,00	1,25,25,00	1,40,20,00
राज्य भविष्य निधियाँ (शुद्ध)	State Provident Funds (Net)	41,66,28	62,70,63	68,91,55	74,70,52
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund	76,95	5,00,00	2,00,00	5,00,00
आयकर वार्षिकी जमा (शुद्ध)	Income Tax Annuity Deposits (Net)	3,48,36	—10,25,00	—10,25,00	—11,33,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (Net)	—32,59	—25,00,00	—22,00,00	—5,00,00
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	—70,50,10	40,11,00	71,83,00	13,27,00
अन्य मदें (शुद्ध)	Other Items (Net)	—11,67,66	—9,57,64	—9,54,48	1,82,11
जोड़	TOTAL	77,11,80	1,98,23,99	2,26,20,07	2,18,66,63
जमा और अग्रिम	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यहास और अन्य प्रारक्षित निधियाँ (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	46,71,08	27,42,35	32,18,51	22,60,03
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	..
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)	2,40,27,34	22,80,49	1,62,87,39	76,52,99
जोड़	TOTAL	2,91,98,42	55,22,84	2,00,05,90	99,13,02
प्रेषणाएँ (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)
इंग्लैंड और भारत के बीच सफ़दी का अन्तरण (शुद्ध)	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA (NET)	1,26,13
जोड़—III—सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT	3,70,36,35	2,53,46,83	4,26,25,97	3,17,79,65
जोड़ — प्राप्तियाँ	TOTAL—RECEIPTS	24,76,86,45	26,39,55,68	27,94,48,62	26,97,43,11
पूर्व-शेष	Opening Balance	64,56,86	50,90,36	1,12,11,46	51,00,00
जोड़	TOTAL	25,41,43,31	26,90,46,04	29,06,60,08	27,48,43,11

@टिप्पणी—इसमें "सरकारी ऋण" में सम्मिलित वार्षिकी-पत्र शामिल नहीं हैं।

NOTE.—Excludes Annuity Certificates included under "Public Debt".

भुगतानों का सामान्य विवरण—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—concl'd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
	ब्योरे के लिए विवरण देखिये	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	For details vide Statement	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	23,48,69,27	26,28,02,43	28,42,36,90	26,84,07,21
II— भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA	2,96,05
III— सार्वजनिक खाता—	III.—PUBLIC AC- COUNT—				
जमा और अग्रिम	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)
जोड़	TOTAL
प्रेषणाएं (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)	77,66,54	12,21,25	13,23,18	14,29,90
इंग्लैण्ड और भारत के बीच नकदी का अंतरण (शुद्ध)	Transfer of cash between England and India (Net)
रिजर्व बैंक में जमा (शुद्ध)	RESERVE BANK DEPOSITS (NET)	—1
जोड़—III—सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT	77,66,53	12,21,25	13,23,18	14,29,90
जोड़—भुगतान	TOTAL—DISBURSEMENTS	24,29,31,85	26,40,23,68	28,55,60,08	26,98,37,11
हति शेष	Closing Balance	1,12,11,46	50,22,36	51,00,00	50,06,00
जोड़	TOTAL	25,41,43,31	26,90,46,04	29,06,60,08	27,48,43,11

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
I—सीमा-शुल्क	I.—Customs	4,46,49,79	4,35,20,00	4,15,00,00	4,65,00,00
II—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	II.—Union Excise Duties	13,20,67,10	14,97,75,00	15,25,76,00	17,77,78,00
III—निगम-कर	III.—Corporation Tax	2,99,76,67	3,26,20,00	3,20,00,00	3,42,00,00
IV—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	IV.—Taxes on Income other than Corporation Tax	1,83,95,88	1,77,72,97	1,06,82,04	88,45,02
V—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	V.—Estate Duty	1,19,88	39,38	51,78	32,99
VI—सम्पत्ति-कर	VI.—Taxes on Wealth	11,11,34	12,00,00	14,00,00	18,00,00
VII—व्यय-कर	VII.—Expenditure Tax	15	1,00	1,00	83
VIII—दान-कर	VIII.—Gift Tax	1,51,22	1,50,00	1,50,00	1,50,00
IX—भू-राजस्व	IX.—Land Revenue	27,57	20,04	15,16	14,79
X—राज्य उत्पादन-शुल्क	X.—State Excise Duties	4,26,17	4,94,18	4,36,30	4,57,80
XI—गाड़ियों पर कर	XI.—Taxes on Vehicles	1,67,66	1,81,02	2,30,52	2,43,50
XII—बिक्री-कर	XII.—Sales Tax	23,21,42	25,95,72	24,52,64	26,02,41
XIII—अन्य कर और शुल्क	XIII.—Other Taxes and Duties	8,18,09	8,49,32	9,85,44	10,36,25
XIV—स्टाम्प	XIV.—Stamps	7,32,62	6,60,87	6,91,99	6,91,88
XV—रजिस्ट्री फीस	XV.—Registration Fees	13,58	15,81	14,52	15,77
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	23,09,79,14	24,98,95,31	24,31,87,39	27,43,69,24
ऋण-व्यवस्था—	DEBT SERVICES—				
XVI—ब्याज—	XVI.—Interest—				
राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Governments	2,40,71,18	2,49,00,00	2,64,00,00	2,90,00,00
रेलों से ब्याज	Interest from Railways	1,22,30,41	1,28,74,20	1,29,26,63	1,38,30,48
डाक और तार से ब्याज	Interest from Posts and Telegraphs	9,20,20	10,17,35	10,10,77	11,54,07
अन्य वाणिज्यिक विभागों से ब्याज	Interest from Other Commercial Departments	10,89,60	1,52,15,51	1,70,08,84	1,71,42,22
अन्य ब्याज प्राप्तियाँ	Other Interest Receipts	1,31,46,35			
जोड़—ऋण-व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	5,14,57,74	5,40,07,06	5,73,46,24	6,11,26,77
घाटे से जायी गयी रकम	Carried over	28,24,36,88	30,39,02,37	30,05,33,63	33,54,96,01

और भुगतानों के अनुमान —जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—जारी					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>contd.</i>					
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह—		COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES—			
1—सीमा-शुल्क	1.—Customs	6,77,72	8,29,22	8,64,86	10,17,40
2—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	2.—Union Excise Duties	12,84,44	13,27,15	12,96,38	13,47,13
3—निगम-कर	3.—Corporation Tax	2,68,05	3,28,88	3,19,78	3,65,21
4—निगम-कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	4.—Taxes on Income other than Cor- poration Tax	10,72,21	12,75,82	13,08,96	14,96,33
5—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	5.—Estate Duty	9,10	18,29	10,86	12,31
6—सम्पत्ति-कर	6.—Taxes on Wealth	15,48	26,80	18,47	20,93
7—व्यय-कर	7.—Expenditure Tax	4	7	5	6
8—दान-कर	8.—Gift Tax	2,12	3,65	2,53	2,86
9—भू-राजस्व	9.—Land Revenue	14,37	18,21	14,79	16,21
10—राज्य उत्पादन-शुल्क	10.—State Excise Duties	5,52	5,73	5,74	6,50
11—गाड़ियों पर कर	11.—Taxes on Vehicles	8,84	8,45	8,53	9,79
12—बिक्री कर	12.—Sales Tax	40,40	43,25	44,85	45,89
13—अन्य कर और शुल्क	13.—Other Taxes and Duties	38,33	41,48	43,08	44,57
14—स्टाम्प	14.—Stamps	4,31,11	5,30,59	4,52,33	4,67,09
15—रजिस्ट्री फीस	15.—Registration Fees	1,83	1,93	2,13	2,33
जोड़—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	TOTAL—COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES	38,69,56	44,59,52	43,93,34	48,54,61
ऋण-व्यवस्था—		DEBT SERVICES—			
16—ऋण और अन्य देनदारियों पर व्याज	16.—Interest on Debt and Other Obliga- tions	5,23,01,92	5,63,81,85	5,63,56,21	5,97,48,36
17—ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	17.—Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	..
जोड़—ऋण व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	5,28,01,92	5,68,81,85	5,68,56,21	5,97,48,36
आगे ल जायी गयी रकम	Carried Over	5,66,71,48	6,13,41,37	6,12,49,55	6,46,02,97

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS				
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
भाग ले जायी गयी रकम	Brought Forward	28,24,36,88	30,39,02,37	30,05,33,63	33,54,96,01
प्रशासनिक सेवाएँ—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
XVII—न्याय प्रशासन	XVII.—Administration of Justice.	58,19	50,57	54,54	54,29
XVIII—जेल	XVIII.—Jails	3,45	7,17	3,63	4,63
XIX—पुलिस	XIX.—Police	1,92,36	91,26	1,37,83	1,32,75
XX—पूति और निपटान	XX.—Supplies and Disposals	5,99,73	6,41,94	6,47,49	6,47,49
XXI—विविध विभाग	XXI.—Miscellaneous Departments	1,71,00	1,88,51	1,92,89	1,94,17
जोड़—प्रशासनिक सेवाएँ	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	10,24,73	9,79,45	10,36,38	10,33,33
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएँ—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
XXII—शिक्षा	XXII.—Education	1,69,18	1,03,54	1,52,69	1,37,65
XXIII—चिकित्सा	XXIII.—Medical	84,74	1,08,74	1,03,99	1,06,52
XXIV—सो. स्वास्थ्य	XXIV.—Public Health	40,54	36,02	46,51	42,61
XXV—कृषि	XXV.—Agriculture	2,66,32	2,43,45	2,29,71	1,99,95
XXVI—ग्राम-विकास	XXVI.—Rural Development
XXVII—पशु-पालन	XXVII.—Animal Husbandry	24,34	21,50	28,80	32,84
XXVIII—सहकारिता	XXVIII.—Co-operation	3,06	2,72	11,52	3,10
XXIX—उद्योग	XXIX.—Industries	2,22,07	2,07,44	2,63,18	2,87,78
XXX—प्रसारण	XXX.—Broadcasting	12,06,36	15,47,14	15,33,93	16,48,73
XXXI—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	XXXI.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works	7,63	1,18	99	1,53
XXXII—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	XXXII.—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations	8,30,90	7,45,77	8,33,67	8,13,31
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएँ	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	28,55,14	30,17,50	32,04,99	32,94,02
भाग ले जायी गयी रकम	Carried Over	28,63,16,75	30,78,99,32	30,47,75,00	33,98,23,36

भुगतानों के अनुमान—जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हज़ार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,66,71,48	6,13,41,37	6,12,49,55	6,46,02,97
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES —				
18—संसद्, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल	18.—Parliament, State and Union Terri- tory Legislatures	3,99,99	4,54,15	5,34,03	5,90,57
19—सामान्य प्रशासन	19.—General Administration	27,97,86	27,50,59	27,58,34	29,17,36
20—लेखा-परीक्षा	20.—Audit	18,06,25	20,14,04	20,54,99	22,49,81
21—न्याय प्रशासन	21.—Administration of Justice	81,50	84,11	96,53	1,10,87
22—जेल	22.—Jails	22,72	17,27	23,61	2,24,54
23—पुलिस	23.—Police	72,60,33	74,71,24	86,29,53	88,84,10
24—वैदेशिक कार्य	24.—External Affairs	14,12,31	20,68,41	19,91,48	23,48,00
25—पूर्ति और निपटान	25.—Supplies and Disposals	4,57,34	4,63,00	4,69,35	4,77,01
26—विभिन्न विभाग	26.—Miscellaneous Departments	11,13,43	11,60,25	11,73,84	13,67,64
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	1,53,51,73	1,64,83,06	1,77,31,70	1,89,69,90
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	7,20,23,21	7,78,24,43	7,89,81,25	8,35,72,87

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हज़ार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I.—भारत की संयोजित निधि—जारी					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.					
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	28,63,16,75	30,78,99,32	30,47,75,00	33,98,23,96
<hr/>					
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
XXXIII—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं .	XXXIII.—Multi-purpose River Schemes . . .	10,17	8,83	10,81	10,74
XXXV—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जलनिकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (गैरवाणिज्यिक) . . .	XXXV.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) . . .	5,67	55	5,10	5,10
XXXVI—बिजली योजनाएं	XXXVI.—Electricity Schemes . . .	88,65	3,65,52	5,15,95	15,32,25
<hr/>					
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES . . .	1,04,49	3,74,90	5,31,86	15,48,09
<hr/>					
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	28,64,21,24	30,82,74,22	30,53,06,86	34,13,71,45

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

DISBURSEMENTS

		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	7,20,23,21	7,78,24,43	7,89,81,25	8,35,72,87
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
27—वैज्ञानिक विभाग	27.—Scientific Departments	54,01,91	64,41,22	60,88,03	71,30,61
28—शिक्षा	28.—Education	68,87,26	76,95,52	77,44,78	87,09,27
29—चिकित्सा	29.—Medical	14,03,04	15,41,69	15,21,59	17,82,26
30—लोक-स्वास्थ्य	30.—Public Health	7,61,25	11,84,78	10,46,31	12,01,46
31—कृषि	31.—Agriculture	17,92,54	23,57,93	20,27,46	28,59,78
32—ग्राम-विकास	32.—Rural Development	22	43	52	19
33—पशुपालन	33.—Animal Husbandry	1,88,58	2,13,54	2,33,28	3,20,85
34—सहकारिता	34.—Co-operation	2,25,38	2,28,20	2,54,88	2,60,31
35—उद्योग	35.—Industries	29,51,81	30,90,74	32,44,19	37,89,77
36—प्रसारण	36.—Broadcasting	9,78,07	10,67,92	10,74,27	11,59,78
37—सामुदायिक विकास प्रायोजन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	37.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works	34,31	63,48	57,21	71,07
38—श्रम और नियोजन	38.—Labour and Employment	10,08,51	11,41,94	10,74,99	13,80,96
39—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	39.—Miscellaneous Social and Developmental Organisations	17,87,50	21,97,27	22,76,62	33,05,04
40—राजस्व से किया जाने वाला औद्योगिक विकास संबंधी पूंजी परिव्यय	40.—Capital Outlay on Industrial Development met from Revenue	89	2,90	2,55	4,30
41—राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रसारण सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	41.—Capital Outlay on Broadcasting within the Revenue Account	1,68	5,01	6,39	9,55
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	2,34,22,95	2,72,32,57	2,66,53,07	3,19,85,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	9,54,46,16	10,50,57,00	10,56,34,32	11,55,57,87

II.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND
(हजार रुपयों में)

प्राप्तियां

(In thousands of Rupees)

RECEIPTS

		वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
1.—भारत की समेकित निधि—जारी:	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	28,64,21,24	30,82,74,22	30,53,06,86	34,13,71,45
लोक निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं—	PUBLIC WORKS INCLUDING ROADS, AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
XXXVII—लोक निर्माण-कार्य	XXXVII.—Public Works	6,14,26	7,50,42	6,39,18	7,11,20
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
XXXIX—बन्दरगाह और नौचालन	XXXIX.—Ports and Pilotage	61,87	55,55	58,75	64,75
XL—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	XL.—Mercantile Marine	16,58	18,63	18,05	18,55
XLI—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	XLI.—Lighthouses and Lightships	1,38,98	1,50,30	1,36,16	1,41,20
XLII—उड़ान	XLII.—Aviation	4,09,81	5,09,84	5,52,21	5,97,66
XLIII—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	XLIII.—Road and Water Transport Schemes	30,95	34,89	42,09	35,83
XLIV—समुद्रपारोय संचार सेवा	XLIV.—Overseas Communications Service	5,06,84	5,00,47	5,30,00	5,50,40
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMU- NICATIONS (OTHER THAN ROADS)	11,65,03	12,69,68	13,37,26	14,18,39
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	28,82,00,53	31,02,94,32	30,72,83,30	34,35,01,04

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि— जारी	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	9,54,46,16	10,50,57,00	10,56,34,32	11,55,57,87
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं . . .	42—Multipurpose River Schemes . . .	1,41,08	1,74,05	1,62,80	2,67,90
44—सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (घराणिज्यिक) . . .	44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) . . .	6,82	20,17	14,84	26,95
45—बिजली योजनाएं . . .	45—Electricity Schemes . . .	66,43	2,44,69	4,10,85	11,60,88
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES . . .	2,14,33	4,38,91	5,88,49	14,55,73
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
50—लोक-निर्माण कार्य . . .	50—Public Works . . .	32,85,69	36,74,51	37,38,48	41,18,56
52—राजस्व से किये जाने वाले लोक निर्माण-का कार्यों पूंजी परियोजनाएं—	52—Capital outlay on Public Works met from Revenue . . .	1,18,91	1,18,84	1,29,90	1,44,25
जोड़—लोक-निर्माण कार्य	TOTAL—PUBLIC WORKS . . .	34,04,60	37,93,35	38,68,38	42,62,81
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)				
53—बन्दरगाह और नौचालन . . .	53—Ports and Pilotage . . .	1,12,66	72,10	1,78,76	1,43,00
54—व्यापारिक समुद्री बेड़ा . . .	54—Mercantile Marine . . .	2,44,57	2,95,76	2,96,31	4,31,18
55—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत . . .	55—Lighthouses and Lightships . . .	1,39,51	1,44,00	1,40,00	1,43,01
56—उड्डयन . . .	56—Aviation . . .	6,36,74	8,63,98	8,73,41	8,47,16
57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं . . .	57—Road and Water Transport Schemes . . .	61,20	72,15	72,23	80,99
58—समुद्रपारीय संचार सेवा . . .	58—Overseas Communications Service . . .	2,47,96	2,85,01	2,74,51	4,34,98
जोड़—परिवहन और संचार [(सड़कों से भिन्न)]	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS) . . .	14,42,64	17,33,00	18,35,22	20,80,32
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	10,05,07,13	11,10,22,26	11,19,26,41	12,33,56,73

II—केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

(हजार रुपयों में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	28,82,00,53	31,02,94,32	30,72,83,30	34,35,01,04
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT—				
XLV—मुद्रा और सिक्का-डलाई	XLV.—Currency and Coinage	82,35,10	91,53,23	90,22,07	94,37,81
XLVI—टकसाल	XLVI.—Mint	57.74	75.71	2,24,56	1,03,39
XLVI—क—कोलार की सोने की खान	XLVI-A.—Kolar Gold Mines	2,50,79	2,64,42	2,37,28	2,66,03
जोड़—मुद्रा और टकसाल—	TOTAL—CURRENCY AND MINT	85,43,63	94,93,36	94,83,91	98,07,23
विविध—	MISCELLANEOUS—				
XLVIII—पेंशनों और अन्य सेवा- निवृत्ति लाभों के लिए भंडारण और वसूलियां	XLVIII.—Contributions and Re- coveries towards Pensions and Other Retirement benefits	2,54,24	1,55,04	1,77,09	1,76,12
XLIX—लेखन सामग्री और छपाई	XLIX.—Stationery and Printing	1,60,82	1,24,86	1,12,32	1,11,10
L—अफीम और अलकलायड के कारखाने	L.—Opium and Alkaloid Factories	5,77,69	5,75,70	7,50,00	8,30,00
LI—वन	LI.—Forest	2,66,98	2,90,33	2,88,15	2,87,59
LII—विविध	LII.—Miscellaneous	20,85,57	15,95,10	50,22,24	33,99,42
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	33,45,30	27,41,03	63,49,80	48,04,23
भंडारण और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
LIII—रेलों का भंडारण	LIII.—Contributions from Railways	28,36,19	30,26,99	29,17,09	28,79,16
LIV डाक और तार का भंडारण	LIV.—Contributions from Posts and Telegraphs	2,63,95	2,99,61	2,85,60	3,25,63
LVIII—वाणिज्यिक और अन्य उप- क्रमों से लाभान्वित आदि	LVIII.—Dividends etc. from Com- mercial and other Undertakings	13,04,01	12,53,59	13,80,80	13,86,13
जोड़—भंडारण और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MIS- CELLANEOUS ADJUSTMENTS	44,04,15	45,80,19	45,83,49	45,90,92
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	30,44,93,61	32,71,08,90	32,77,00,50	36,27,03,2

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
1—भारत की समेकित निधि— जारी	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	10,05,07,73	11,10,22,26	11,19,26,41	12,33,56,73
	CURRENCY AND MINT—				
62—मुद्रा और सिक्का डलाई	62.—Currency and Coinage	15,41,16	17,33,12	17,63,97	16,32,36
63—टकसाल	63.—Mint	3,40,35	3,30,06	3,33,09	3,59,85
63-क—कोलार की सोने की खानें	63-A.—Kolar Gold Mines	5,49,49	5,80,54	5,89,28	6,07,86
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	24,31,00	26,43,72	26,86,34	26,00,07
	MISCELLANEOUS—				
विविध—					
64—दुर्भिक्ष सहायता	64.—Famine Relief	37	51	6	51
65—पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	65.—Pensions and other retirement benefits	7,17,27	7,66,51	8,14,10	9,84,69
66—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें	66.—Territorial and Political Pensions	20,17	18,93	18,99	28,81
67—भारतीय राजाओं की निजी धैलियां और भत्ते	67.—Privy Purses and Allowances Of Indian Rulers	4,79,68	4,80,66	4,81,10	4,79,91
68—लेखन-सामग्री और छपाई	68.—Stationery and Printing	5,80,13	4,20,96	5,01,91	5,76,44
69—अफीम और अलकलायड के कारखाने	69.—Opium and Alkaloid Factories	3,33,67	4,59,14	5,68,11	5,64,94
70—वन	70.—Forest	4,28,58	4,15,83	4,20,09	4,68,53
71—विविध	71.—Miscellaneous	1,71,87,11	2,01,06,82	2,14,32,52	1,90,22,02
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	1,97,46,98	2,26,69,36	2,42,36,88	2,21,25,85
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENT;—				
73—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में से राज्यों के हिस्से की अदायगी	73.—Payments of State's share of Union Excise Duties	2,90,92,67	3,02,39,91	3,21,50,73	3,53,45,46
74—राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अंशदान	74.—Grants-in-aid to State and Union Territory Governments	5,35,70,12	5,96,18,11	5,92,06,15	6,36,10,11
75—केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	75.—Miscellaneous Adjustments between Central State and Union Territory Governments	29,28	38,90	38,90	40,94
76—अन्य विविध अंशदान और समर्पण (असाइनमेंट)	76.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	8,67,22	8,34,24	10,30,97	10,35,99
जोड़—अंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENT;	8,35,59,29	9,07,31,16	9,24,26,75	10,00,32,50
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	20,62,45,00	22,70,66,50	23,12,76,38	24,81,15,15

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND
(हजार रुपये में)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69 Actuals, 1969-70	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1970-71	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1970-71	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1971-72
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	30,44,93,61	32,71,08,90	32,77,00,50	36,27,03,42
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—				
LX—असाधारण प्राप्तियां	LX.—EXTRAORDINARY RECEIPTS	36,24,25	27,60,02	9,98,70	16,40,02
LXI—विभाजन-पूर्व की प्राप्तियां	LXI.—Prepartition Receipts	1
LXI—क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां	LXI.—A.—Receipts connected with the National Emergency	2,88,83
जोड़—असाधारण मदें	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	39,13,09	27,60,02	9,98,70	16,40,02
रक्षा सेवाएं	DEFENCE SERVICES—				
LXII—रक्षा सेवाएं—सक्रिय	LXII.—Defence Services-Effective	59,69,35	47,97,00	52,62,00	64,92,00
LXIII—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	LXIII.—Defence Services—Non-effective	1,54,94	1,52,00	1,95,00	1,67,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	61,24,29	49,49,00	54,57,00	66,59,00
LXIX—डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS—				
	LXIX.—Posts and Telegraphs	2,09,19,74	2,26,66,00	2,32,31,00	2,56,82,00
रेल—	RAILWAYS—				
रेल बजट के अनुसार रेलों का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget	8,99,07,42	9,47,32,05	9,50,75,73	10,22,43,88*
जोड़—राजस्व प्राप्तियां	TOTAL—REVENUE RECEIPTS	42,53,58,15	45,22,15,97	45,24,62,93	49,89,28,32
आगे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 26 देखिए)	Carried Over (See page 26)				
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	Excess of Expenditure over Revenue or Deficit	10,93,96	..

*Excluding the effect of Concessions announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget

*संसद में रेल बजट पर हुई बहस के दौरान घोषित की गई रियायतों का परिणाम इसमें शामिल नहीं है।

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

(हजार रुपये में)

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>contd.</i>			
अगले लायी गयी रकम	Brought Forward	20,62,45,00	22,70,66,50	23,12,76,38
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—			
77—असाधारण व्यय	77.—Extraordinary Charges	5,06,06	5,80,74	5,80,91
78—विभाजन-पूर्व की अदायगियां	78.—Pre-partition Payments	2,06	7,87	3,52
78-क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	78-A.—Expenditure connected with the National Emergency	6,52,55
जोड़—असाधारण मदें—	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	11,60,67	5,88,61	5,84,43
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICE;			
79—रक्षा सेवाएं—सक्रिय-स्थल-सेना	79.—Defence Services—Effective Army	7,43,05,21	7,57,88,25	7,54,65,60
नौ-सेना	Navy	40,42,55	46,86,15	46,86,15
वायु-सेना	Air Force	1,76,59,70	1,97,72,60	1,97,72,60
82—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	82.—Defence Services—Non-effective	30,22,31	32,80,00	34,65,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	9,90,29,77	10,35,27,00	10,33,89,35
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS			
90—डाक और तार—	90.—Posts & Telegraphs			
कार्य चलन व्यय	Working Expenses	1,97,47,10	2,03,08,78	2,12,45,94
सामान्य राजस्व से लाभांश	Dividend to General Revenues	11,72,64	13,16,96	12,96,37
डाक और तार विभाग के अधिशेष से वित्तियोग	Appropriation from P.&T. Surplus	..	10,40,26	..
सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी	Repayment of loan from General Revenues	..	10,40,26	10,19,60
घटाइये—डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से किया जाने वाला व्यय	Deduct—Amount met from P.&T. Revenue Reserve Fund	..	—10,40,25	—3,30,91
	TOTAL—POSTS & TELEGRAPHS	209,19,74	2,26,66,00	2,32,31,00
रेलें—रेलवे बजट के अनुसार रेलों का व्यय	RAILWAYS—Railway Expenditure as per Railway Budget	8,99,07,42	9,47,32,05	9,50,75,73
जोड़—राजस्व से व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE	41,72,62,60	44,85,80,16	45,35,56,89
अगले ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 27 देखिए)	Carried Over (See page 27)	41,72,62,60	44,85,80,16	45,35,56,89
व्यय से राजस्व की अधिकता अथवा अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SURPLUS	80,95,55	36,35,81	..

*Excludes the affect of Concessions announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget

संसद में रेल बजट पर हुई बहस के दौरान घोषित की गयी रियायतों का परिणाम इसमें शामिल नहीं है।

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENT OF
THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

(हजार रुपयों में)

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1970-71
I—भारत को समकित निधि—जारी				
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
राजस्व खाते से बाहर की पूंजी खाता—				
CAPITAL ACCOUNT OUTSIDE THEREVENUEACCOUNT—				
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—				
SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
94—लोक-स्वास्थ्य का सुधार	14,35	11,82	19,49	66,90
94.—Improvement of Public Health				
95—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा	1,31,19	4,38,57	2,67,67	3,06,03
95.—Agricultural Improvement and Research				
96—औद्योगिक और आर्थिक विकास	2,39,42,84	3,32,67,00	3,41,66,80	3,40,96,11
96.—Industrial and Economic Development				
97—प्रसारण	3,30,07	3,68,71	3,21,71	4,17,49
97.—Broadcasting				
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	2,44,18,45	3,40,86,10	3,47,75,67	3,48,86,53
TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES				
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं सिंचाई और बिजली योजनाएं				
MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
98—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	20,21,87	20,50,56	18,81,47	21,77,63
98.—Multi Purpose River Schemes				
100—सिंचाई, नौगरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	97,23	84,15	1,32,11	2,90,38
100.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)				
101—बिजली योजनाएं	4,49,72	36,90,77	39,99,04	46,47,51
101.—Electricity Schemes				
जोड़—बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं सिंचाई और बिजली योजनाएं	25,68,82	58,25,48	60,12,62	71,25,52
TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEME;				
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं				
PUBLIC WORKS (EXCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
103—लोक-निर्माण-कार्य	38,84,61	55,99,90	46,38,59	66,33,64
103.—Public Works				
104—दिल्ली पूंजी परिव्यय	7,03,12	17,83,05	16,14,00	13,95,00
104.—Delhi Capital Outlay				
105—चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय	—17,38	86,05	70,83	19,86
105.—Chandigarh Capital Outlay				
108—दण्डकारण्य विकास योजनाएं	3,28,37	3,00,00	3,00,00	3,00,00
108.—Dandakaranya Development Schemes				
108A—कांडला अवाध व्यापार क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय	5,69	4,12	5,45	3,68
108A.—Capital Outlay on Free Trade Zone, Kandla				
109—अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	42,48	—1,84,59	—7,34,55	9,12,00
109.—Capital Outlay on Other Works				
जोड़—लोक निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं	49,46,89	75,88,53	58,94,32	92,64,18
TOTAL—PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS				
आगे ले जायी गयी रकम	3,19,34,16	4,75,00,11	4,66,82,61	5,12,76,23
Carried Over				

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—Contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69 Accounts, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70 Revised Estimate, 1969-70	बजट अनुमान 1970-71 Budget Estimate, 1970-71
1—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	3,19,34,16	4,75,00,11	4,66,82,61	5,12,76,23
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)				
110—बन्दरगाह	110.—Ports	3,13,22	6,32,50	6,28,21	8,76,77
111—प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत	111.—Lighthouses and Lightships	—82	35,40	..	28,57
112—विमानन	112.—Aviation	8,59,27	12,83,01	9,17,92	10,79,72
113—रेल-सड़क समन्वय योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	113.—Capital Outlay on Rail-Road Coordination Schemes
114—सड़क और जल परिवहन परियोजनाएं	114.—Road and Water Transport Schemes	7,14	5,10	—33,95	4,01
115—समुद्रपारीय संचार सेवा	115.—Overseas Communications Service	1,79,81	3,35,00	4,76,52	1,60,64
116—जहाजों, तेलवाहक जहाजों आदि पर पूँजी परिव्यय	116.—Capital Outlay on Shipping, Tankers, etc.	74,25	2,63,55	4,20,62	7,21,60
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COM- MUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	14,32,87	25,54,56	24,09,32	28,71,31
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
117—मुद्रा और सिक्का ढलाई	117.—Currency and Coinage	13,42,30	4,83,56	6,70,08	10,49,54
118—टकसाल	118.—Mint	20,37	50,27	50,27	50,18
118क—कोलार की सोने की खानों पर पूँजी परिव्यय	118-A.—Capital Outlay on Kolar Gold Mines	71,83	94,02	92,81	1,02,94
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	14,34,50	6,27,85	8,13,61	12,02,66
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	3,48,01,53	5,06,82,52	4,99,05,09	5,53,50,20

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
1—भारत की समेकित निधि—जारी I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—Contd.					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	3,48,01,53	5,06,82,52	4,99,05,09	5,53,50,20
विविध— MISCELLANEOUS—					
93—सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	93.—Security Printing Press	20,84	66,56	39,53	44,46
119—वन	119. Forests	1,08	25,20	24,52	8,65
119—क अफीम और अलकलायड कारखानों पर पूंजी परिव्यय	119-A.—Capital Outlay on Opium and Alkaloid Factories.	21,16
120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	120.—Payments of Commuted value of Pensions	3,78,89	4,79,86	5,06,45	5,63,46
121—स्टर्लिंग पेंशनों पर पूंजी परिव्यय	121.—Capital Outlay on Sterling Pensions	—3,83,72	—3,96,55	[—3,96,55	—4,00,51
124—सरकारी व्यापार की योजनाएं	124.—Schemes of Government Trading	—1,89,31,92	—36,13,11	—15,86,57	—24,14,28
जोड़	TOTAL	—1,89,14,83	—34,38,04	—14,12,62	—21,77,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	3,48,01,53	5,06,82,52	4,99,05,09	5,53,50,20

और भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS				
		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
1—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	3,48,01,53	5,06,82,52	4,99,05,09	5,53,50,20
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	—1,89,14,83	—34,38,04	—14,12,62	—21,77,06
126—विकास अनुदान . . .	126.—Grants for Development . . .	17,01,28	6,28,35	1,61,95	61,21
127—विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास अनुदान . . .	127.—Compensation and Rehabilitation Grants to Displaced Persons . . .	—6,46,46	—5,52,54	—5,72,04	—1,43,53
129—सिंधु नदी जल सन्धि के अनुसार भ्रदामगियों पर पूंजी परिच्यय . . .	129.—Capital Outlay on Payments under Indus Water Treaty . . .	6,16,59	5,39,28	5,41,75	—6,55,74
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS . . .	—1,72,43,42	—28,22,95	—12,80,96	—29,15,12
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिच्यय	DEFENCE CAPITAL OUTLAY—				
130—रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिच्यय . . .	130.—Defence Capital Outlay . . .	1,04,13,51	1,24,22,00	1,25,42,00	1,33,67,00
131/142—रेल पूंजी (जो रेलवे में दिखाई गयी है) . . .	131/132.—RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET)	1,21,47,40	1,32,60,00	1,24,85,74	1,50,00,00
134—डाक और तार . . .	134.—POSTS AND TELEGRAPHS	26,71,63	34,16,41	35,95,70	35,00,00
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता	TOTAL—CAPITAL ACCOUNT OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT—Carried Over . . .	4,27,90,65	7,69,57,98	7,72,47,57	8,43,02,08
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	4,27,90,65	7,69,57,98	7,72,47,57	8,43,02,08

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
1—भारत की समेकित निधि— जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला	A.—Debt raised in India—				
I—स्थायी ऋण	I.—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	3,95,67,37	5,00,00,00	6,10,31,00	4,55,00,00
अन्य मद	Other Items	48,12	25,00	5,28,00	15,35,00
जोड़—स्थायी ऋण	TOTAL—PERMANENT DEBT	3,96,15,49	5,00,25,00	6,15,59,00	4,70,35,00
II—प्रस्थान ऋण—	II.—FLOATING DEBT—				
राजकोष हुंडियां	Treasury Bills	85,80,24,53	96,53,00,00	91,68,41,25	97,26,00,00
अन्य मदें	Other Items	3,48,75	3,48,75	3,48,75	3,48,75
जोड़—प्रस्थान ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	85,83,73,28	96,56,48,75	91,71,90,00	97,29,48,75
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	B.—Debt raised outside India	6,53,82,99	8,50,00,04	7,14,10,00	7,19,00,00
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	96,33,71,76	110,06,73,79	105,01,59,00	1,09,18,83,75
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments	5,85,10,99	5,40,00,00	6,40,00,00	6,00,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances	1,57,26,74	2,05,00,00	2,40,00,00	2,25,00,00
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	7,42,37,73	7,45,00,00	8,80,00,00	8,25,00,00
प्रत्यक्ष राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	18,32	..	9,85	..
जोड़—राजस्व प्राप्तियां—पृष्ठ 20 से आगे लायी गयी रकम	Total—Revenue Receipts—Brought Forward (from Page 20)	42,53,58,15	45,22,15,97	45,24,62,93	49,89,28,32
जोड़—I भारत की समेकित निधि—प्राप्तियां	TOTAL I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—RECEIPTS	1,46,29,85,96	1,62,73,89,76	1,59,06,31,78	1,67,33,12,07

भुगतानों क अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

(हजार रुपयों में)

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	4,27,90,65	7,69,57,98	7,72,47,57	8,43,02,08
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण	A.—Debt raised in India—				
I—स्थायी ऋण—	I.—PERMANENT DEBT..				
बाजार ऋण	Market Loans	2,41,53,95	3,94,00,00	3,94,00,00	2,93,30,00
अन्य मदें	Other Items	4,59,95	6,50,00	3,20,37	2,06,42
जोड़—स्थायी ऋण	TOTAL—PERMANENT DEBT	2,46,13,90	4,00,50,00	3,97,20,37	2,95,36,42
II—अस्थायी ऋण	II.—FLOATING DEBT—				
राजकोषीय ढुंडियां	Treasury Bills	83,45,31,50	94,00,00,00	90,14,41,25	95,00,00,00
अन्य मदें	Other Items	6,00,45	2,00,75	2,01,00	2,01,00
जोड़—अस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	83,51,31,95	94,02,00,75	90,16,42,25	95,02,01,00
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	B.—Debt raised outside India				
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	87,73,84,53	1,00,10,11,06	95,93,16,94	99,97,61,98
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments	1,15,27,11	7,93,74,23	10,57,97,35	8,78,25,34
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances	5,82,64,22	4,56,59,91	4,24,23,33	4,67,18,81
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	14,97,91,33	12,50,34,14	14,82,20,68	13,45,44,15
अन्तर्राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	34,71
जोड़—राजस्व से व्यय (पृष्ठ 21 से आगे लायी गयी रकम)	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE—BROUGHT FORWARD (FROM PAGE 21)	41,72,62,60	44,85,80,16	45,35,56,89	48,51,47,61
जोड़—I—भारत की समेकित निधि भुगतान	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	1,48,72,63,82	1,65,15,83,34	1,63,83,42,08	1,70,37,55,82

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपये में)

प्राप्तियां

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	मंशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71

II—भारत की आकस्मिकता निधि

II.—CONTINGENCY FUND
OF INDIA—

भारत की आकस्मिकता निधि

CONTINGENCY FUND OF INDIA—

समेकित निधि या अन्य किसी प्रारक्षित निधि
से विनियोगAppropriation from the Consolidated
Fund or from any Reserve Fund.

58,69

..

2,96,05

..

जोड़—II—भारत की आकस्मिकता निधि
प्राप्तियांTOTAL—II—CONTINGENCY FUND
OF INDIA—RECEIPTS

58,69

..

2,96,05

..

और भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—			
भारत की आकस्मिकता निधि	CONTINGENCY FUND OF INDIA—			
भारत की आकस्मिकता निधि के अधिमों से व्यय	Expenditure out of advances from the Contingency Fund of India .	2,96,05
जोड़-II—भारत की आकस्मिकता निधि- भुगतान	TOTAL—II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—DISBURSE- MENTS	2,96,05

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

(हजार रुपयों में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
III—सार्वजनिक खाता	III.—PUBLIC ACCOUNT—			
अनिधिबद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—			
छोटी बचत योजनाएं	SMALL SAVINGS SCHEME . . .	5,95,53,97	5,85,37,00	6,44,60,00
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds . . .	1,48,93,42	1,54,10,98	1,59,07,93
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund . . .	76,95	5,00,00	2,00,00
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits . . .	13,46,40	7,00,00	5,00,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)
अमेरिकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवण (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	40,11,00	71,83,00
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—			
सेवा निधियों की जमा	Deposits of Service Funds 1,73	1,91	1,54
अन्य खाते	Other Accounts . . .	14,97,59	4,58,66	5,44,03
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS . . .	14,99,32	4,60,57	5,45,57
जोड़—अनिधिबद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT . . .	7,73,70,06	7,96,19,55	8,87,96,50
आग ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	7,73,70,06	7,96,19,55	8,87,96,50

भुगतानों के अनुमान—जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—Contd

भुगतान	DISBURSEMENTS				(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
	वास्तविक भुगतान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	1968-69	1969-70	1969-70	1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71				
III—सार्वजनिक खाता—जारी					III—PUBLIC ACCOUNT—contd.			
अनिधिबद्ध ऋण—					UNFUNDED DEBT—			
छोटी बचत योजनाएं	SMALL SAVINGS SCHEMES.	4,81,83,41	4,50,12,00	5,19,35,00	5,406,00			
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds	1,07,27,14	91,40,35	90,16,38	95,00,05			
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	9,98,04	17,25,00	15,25,00	16,33,00			
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	32,59	25,00,00	22,00,00	5,00,00			
अमरीकी सरकार की प्रतिस्पर्धी निधि की जमा रकम का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U. S. Government Counterpart Funds (net)	70,50,10			
अन्य मदें—					OTHER ITEMS—			
सेवा-निधियों की जमा	Deposits of Service Funds	2,38	2,01	3,28	1,92			
अन्य खाते	Other Accounts	26,64,60	14,16,20	14,96,77	3,41,77			
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS.	26,66,98	14,18,21	15,00,05	3,43,69			
जोड़—अनिधिबद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,20			
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over.	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30			

**II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND**

प्राप्तियां

(हजार रुपये में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
III.—सार्वजनिक खाता—जारी					
III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	7,73,70.06	7,96,19.55	8,87,96.50	8,79,03.93
जमा और अग्रिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां—	Depreciation and other Reserve Funds—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	17,67.93	13,14.04	16,31.51	19,36.90
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,01,41.82	1,01,33.98	1,11,92.31	1,11,22.48
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	14,20.10	20,59.53	20,29.97	23,15.72
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलिफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	7,70.78	10,40.26	10,19.60	10,58.46
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	1,54.91	1,70.01	1,68.27	2,20.70
(ख) गैर-ब्याज—	(b) Non-Interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P & T Renewals Reserve Fund	16,58.48	18,30.89	18,31.14	..
डाक और तार पूंजीगत प्रारक्षित निधि	P. & T. Capital Reserve Fund	9.56	2.96	7.50	5,72.28
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	30.99	71.35	1,23.81	1,37.61
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00.00	5,00.00	5,00.00	..
अन्य जमा रकमें और अग्रिम—	Other Deposits and Advances—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	25,17.20	23,68.95	23,68.95	23,68.95
आयकर, अधिपर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	20.11	14.00	13.00	13.00
भारतीय राजाओं के निमित्त न्यासों में जमा	Deposits of Taxes for Indian Princes	3.05	2.84	2.84	2.69
परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा निधि	Family Pension-cum-Life Assurance Fund	6,00.00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,89,94.93	1,95,08.81	2,08,88.93	2,03,88.79
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	7,73,70.06	7,96,19.55	8,87,96.50	8,79,03.93

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—Contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS				(हजार रुपये में)	
	वास्तविक भुगतान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	(In thousands of Rupees)	
	1968-69	1969-70	1969-70	1970-71		
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71		

III—सार्वजनिक खाता—जारी

III.—PUBLIC ACCOUNT—contd

आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30
जमा और अग्रिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यहास और अन्य प्रारक्षित निधियां	Depreciation and other Reserve Funds—				
(क) ब्याज	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	6,36,65	6,29,11	7,66,12	7,89,18
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	89,42,88	95,28,26	1,02,65,45	1,03,65,23
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	17,38,66	20,59,53	21,56,27	23,15,72
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P.&T. Renewals Reserve Fund
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P.&T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	17,70,78	2,40,26	10,19,60	10,98,46
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	1,85,41	97,49	88,16	1,19,53
(ख) गैर-ब्याज	(b) Non-Interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P.&T. Renewals Reserve Fund	2,24,87	3,93,59	3,26,46	..
डाक और तार पूंजी प्रारक्षित निधि	P.&T. Capital Reserve Fund	..	1,20,00	1,20,00	4,13,94
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	32,84	22,43	43,54	42,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,25,32,09	1,38,80,67	1,47,85,60	1,51,44,12
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND
(हजार रुपयों में)

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>contd.</i>			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	7,73,70,06	7,96,19,55	8,87,96,50
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	1,89,94,93	1,95,08,81	2,08,88,93
(ख) गैर-ब्याज—	(b) Non-Interest Bearing—			
केन्द्रीय सड़क निधि . . .	Central Road Fund . . .	4,08,19	4,00,00	4,00,00
कपास खेतिहर हितकारी निधि . . .				4,75,00
सूती वस्त्र उद्योग निधि . . .				
विपणन विकास निधि . . .	Marketing Development Fund . . .	34,09,97	44,00,00	42,35,00
प्रसैनिक उड्डयन निधि . . .	Civil Aviation Fund . . .	1,00,00	2,50,00	2,50,00
				1,25,00
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund . . .			
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from other Assistance under the Colombo Plan . . .	18,24	87,00	2,42,17
				1,47,00
भारत अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि . . .	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Cooperation Agreement . . .	68,94	75,57	69,85
				68,53
अन्य निधियाँ . . .	Other Funds . . .	1 31,55,50
जोड़ . . .	TOTAL . . .	32,42,68	1,62,57	3,12,02
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	2,61,55,77	2,47,21,38	2,60,85,95
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	7,73,70,06	7,96,19,55	8,87,96,50
				8,79,03,93

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS		(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)		
	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
III—सार्वजनिक खाता—जारी					
III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>contd.</i>					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,31
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,25,32,09	1,38,80,67	1,47,85,60	1,51,44,12
अन्य जमा और अधिम—	OTHER DEPOSITS AND ADVANCES—				
(क) व्याज	(a) Interest bearing—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	23,71,18	23,68,95	23,68,95	23,68,95
आय-कर अधिकर, अतिरिक्त लाभ-कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income-tax, Super- Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	15,84	16,60	23,76	15,50
भारतीय राजाओं के निमित्त व्यासों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	21,05	21,04	21,04	21,04
(ख) गैर-व्याज	(b) Non-Interest bearing—				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	3,61,83	4,36,41	4,34,26	5,11,12
कपास खलिहूर हितकारी निधि					
सूती वस्त्र निधि	Cotton Textiles Fund	15,43	5,00
चीनी उद्योग संरक्षण निधि	Fund for the Protection of Sugar Industry	..	58	80	26
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	28,55,07	42,84,95	42,35,00	40,50,00
असैनिक उड़डयन निधि	Civil Aviation Fund	1,43,00	2,50,00	2,50,00	1,25,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,83,15,49	2,12,64,20	2,21,19,41	2,21,90,99
	Carried Over	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

(हजार रुपयों में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियां 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
<hr/>					
III-सार्वजनिक खाता-जारी	III.-PUBLIC ACCOUNT--contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	7,73,70.06	7,96,19.55	8,87,96.50	8,79,03.93
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,61,55.77	2,47,21.38	2,60,85.95	2,52,09.32
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund	4,66.88	3,98.66	3,97.48	3,94.94
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	23.01	19.60	21.31	21.31
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	77.16	72.00	75.31	83.33
अबरक खान श्रमिक कल्याण निधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	27.74	35.00	35.00	39.00
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund	1,70.13	50.00	20.00	40.00
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मियादी जमा से संबंधित बोनस निधि	Post Office Certificates Cumulative Time Deposits Bonus Fund	38,74.02	44,06.93	34,81.91	38,63.30
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	27.87	1,80.00	1,88.00	1,80.00
संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियां	Emergency Risks (Goods and Factorics) Insurance Funds	1,97.56	2,70.00	2,70.00	2,60.00
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds	1,90.13	30,55.85	2,35.56	2,36.77
असैनिक जमा	Civil Deposits	9,85,24.21	5,04,72.90	6,23,78.48	5,35,24.18
अन्य जमा रकम	Other Deposits	1,10,02.26	1,01,63.13	1,09,88.77	1,11,57.73
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	14,07,36.74	9,38,45.45	10,41,77.77	9,50,09.88
<hr/>					
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	7,73,70.06	7,96,19.55	8,87,96.50	8,79,03.93

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

(हजार रुपये में)

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
<hr/>					
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III. PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,83,15,49	2,12,19,41	2,21,19,41	2,21,90,99
<hr/>					
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Co-operation Agreement	39,39	60,18	69,36	68,53
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from Other Assistance under the Colombo Plan	60,46	20,00	25,27	25,01
अन्य निधियां	Other Funds	5,47
<hr/>					
जोड़	TOTAL	1,05,32	80,18	94,63	93,54
<hr/>					
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याणनिधि	Coal Mines Labour Housing on General Welfare Fund	4,84,84	5,14,99	4,47,80	4,66,92
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा निधि	Coal Mines Central Rescue Sta- tion Fund	31,27	26,27	26,24	20,00
लोहा खान श्रमिक कल्याणनिधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	28,83	65,64	55,83	76,91
अवरक खान श्रमिक कल्याणनिधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	36,44	50,45	45,37	53,26
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund	60,28,13	86,00	45,25	31,30
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	2,50,30,29	2,20,87,70	2,28,34,53	2,29,32,92
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

(हजार रुपये में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71	
	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71	
III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>contd.</i>					
II—सार्वजनिक खाता—जारी					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	7,73,70,06	7,96,19,55	8,79,96,50	8,79,03,93
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	14,07,36,74	9,38,45,45	10,41,77,77	9,50,09,88
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	2,20	1,00	1,00	2,50
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re-Insurance Fund	98,48	66,00	75,00	80,00
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	1,62,49	1,88,19	1,86,00	2,12,00
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	16,68	5,00	13,35	14,00
अन्य खाते	Other Accounts	35,78,63	26,68,37	40,77,54	42,60,61
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	1,41	3	1	1
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	1,25,59	5,04,09	4,76,71	4,86,66
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,98,25,79	3,91,12,29	4,20,77,70	4,22,53,62
रोकड़ बाकी निवेश (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	46,14
बट्टा-शोधन निधि	Discount Sinking Fund	1,65,88	1,52,06	1,52,06	1,12,83
अन्य उल्लंघन खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	1,46,83,36	7,68,55	38,23,68	33,46,56
घनादेश बैंक और हुंडिया (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	23,20,46	..
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)
विविध	Miscellaneous	61,44,32	9,02,08	60,11	9
जोड़—जमा और अग्रिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES	20,55,41,57	13,82,13,11	15,74,41,39	14,58,24,90
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	28,29,11,63	21,78,32,66	24,62,37,89	23,37,28,83

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENT				(हजार रुपये में)	
	वास्तविक भुगतान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	(In thousands of Rupees)	
	1968-69	1969-70	1969-70	1970-71		
	Accounts, 1968-69	Budget, Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget, Estimate, 1970-71		
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,96,58,26	5,97,95,56	6,61,76,43	6,60,37,30	
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,50,30,29	2,20,87,70	2,28,34,53	2,29,32,92	
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मिथादी जमा से सम्बद्ध बोनस विधि	Post Office Certificates and Cumulative Time Deposits Bonus Fund	6,23,54	7,51,28	2,92,91	3,06,77	
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	18,07,31	2,00,00	5,00	5,00	
संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियाँ	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Fund	65,88	83,35	43,60	13,03	
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds	2,31,34	30,67,82	2,99,68	2,32,69	
अतैनिक जमा	Civil Deposits	8,57,44,86	5,01,50,77	5,40,93,16	5,22,96,26	
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	1,02,96,11	96,59,18	1,04,05,34	1,07,30,47	
ब्याज और अधिभार सहित आयकर अधिकार और अनिश्चित लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	10	50	4,27	50	
शारीरिक क्षति (अतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	2,21	20	83	19	
युद्ध जोखिम (मनुष्यी जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re-Insurance Fund	9	4,19	2,28	2,22	
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	5,00,00	..	3,00,00	
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	50,68	3,02	1,89	2,10	
अन्य खाते	Other Accounts	39,45,47	25,87,17	39,53,36	41,02,43	
बर्मा सरकार के साथ हिस्सा खाता	Accounts with the Government of Burma	3	1,10	..	
रिजर्व बैंक के साथ हिस्सा खाता	Accounts with the Reserve Bank	12	5,04,61	4,74,05	4,83,99	
अन्य अधिम	Other Advances	4,00,02,60	3,91,30,10	4,24,49,99	4,26,03,6	
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	22,47,33	20,73	2,05,00	..	
बट्टा शोधन निधि	Discount Sinking Fund	
अन्य उचित खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	
धनादेश (चेक) और ड्रिडिया (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	30,73,49	39,32,46	..	5,93,59	
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)	19,61,79	4,78	8,34,81	13,00,00	
विविध	Miscellaneous	12,59,94	2,39	15,33,69	6,10	
जोड़—ऋण और अधिम	TOTAL—DEPOSITS AND VANCES	17,63,43,15	13,26,90,27	13,74,35,49	13,59,11,88	
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	24,60,01,41	19,24,85,83	20,36,11,92	20,19,49,18	

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

(हजार रुपयों में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियाँ 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
	Accounts, 1968-69	Budget, Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget, Estimate, 1970-71
III—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>concl'd.</i>			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	28,29,11,63	21,78,32,66	24,62,37,89
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—			
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—			
अंतर्देशीय मनी-आर्डर . . .	Inland Money Orders . . .	5,60,80,34	6,00,00,00	5,70,00,00
अन्य प्रेषणाएं . . .	Other Remittances . . .	3,67,19	19,85,55	21,06,82
II—इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषणाएं—	II. REMITTANCES BETWEEN EN- GLAND AND INDIA—			
इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषण-खात I	Remittance Accounts between England and India . . .	3,38,58,20	2,69,17,99	2,48,77,26
जोड़—प्रेषणाएं . . .	TOTAL—REMITTANCES . . .	9,03,05,73	8,89,03,54	8,39,84,08
इंग्लैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN EN- GLAND AND INDIA—			
रिजर्व बैंक की माफत प्रेषणाएं . . .	Remittances through the Reserve Bank . . .	2,37,55,47	1,46,96,12	1,00 95,70
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—			
सिविल . . .	Civil . . .	1,32,22,73
रेल . . .	Railways . . .	—80,18,96	-89,18,93	-83,43,47
डाक और तार . . .	Posts and Telegraphs . . .	49,70,79	50,48,22	39,18,62
रक्षा सेवाएं . . .	Defence Services . . .	—10,36,86,77	-11,03,50,79	-10,91,62,82
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—प्राप्तियाँ	TOTAL III.—PUBLIC ACCOUNT— RECEIPTS . . .	40,34,60,62	20,72,10,82	22,67,30,00
जोड़—(I+II+III—)	TOTAL—(I+II+III) . . .	1,86,65,05,27	1,83,46,00,58	1,81,76,57,83
आरम्भिक शेष . . .	OPENING BALANCE . . .	64,56,86	50,90,36	1,12,11,46
कुल जोड़ . . .	GRAND TOTAL . . .	1,87,29,62,13	1,83,96,90,94	1,82,88,69,29

1,89,10,59,85

भुगतानों के अनुमान—समाप्त
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—Concl'd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70	बजट अनुमान 1970-71
		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
II.—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III.—PUBLIC ACCOUNT—concl'd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	24,60,01,41	19,24,85,83	20,36,11,92	20,19,49,18
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—				
I.—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITH IN INDIA—				
अन्तर्देशीय मनी-आर्डर	Inland Money Orders	5,56,33,59	6,00,00,00	5,70,00,00	5,80,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances	65,58,70	32,06,80	34,30,00	35,38,00
	II.—REMITTANCES BETWEEN ENG- LAND AND INDIA—				
इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषण-खाता	Remittance Account between Eng- land and India	3,58,79,98	2,69,17,99	2,48,77,26	2,47,19,62
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES.	9,80,72,27	9,01,24,79	8,53,07,26	8,62,57,62
इंग्लैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
रिजर्व बैंक की माफत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank	2,36,29,34	1,46,96,12	1,00,95,70	1,41,18,94
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSIT—				
असैनिक	CIVIL	11,32,22,72
रेलें	RAILWAYS	—80,18,96	—89,18,93	—83,43,47	—1,02,43,89
डाक और तार	POSTS AND TELEGRAPHS	49,70,79	50,48,22	39,18,62	47,62,89
रक्षा सेवाएं	DEFENCE SERVICES	—10,36,86,77	—11,03,50,79	—10,91,62,82	—11,45,46,71
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—भुगतान	TOTAL III—PUBLIC ACCOUNT— DISBURSEMENTS	37,41,90,80	18,30,85,34	18,54,27,21	18,22,98,03
जोड़—(I+II+III)	TOTAL (I+II+III)	1,86,17,50,67	1,83,46,68,58	1,82,37,69,29	1,88,60,53,85
इति-शेष	Closing Balance	1,12,11,46	50,22,36	51,00,00	50,06,00
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,87,29,62,13	1,83,96,90,94	1,82,88,69,29	1,81,10,59,85

GOVERNMENT OF INDIA

BUDGET

OF THE

Railway Revenue and Expenditure of the**Central Government for****1970-71**

MINISTRY OF RAILWAYS }
Dated the 23rd February, 1970

K. S. SUNDARA RAJAN,
Financial Commissioner for Railways.

CONTENTS

1.—STATEMENT OF THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT FROM RAILWAYS	1239
2.—STATEMENT OF THE EXPENDITURE ON RAILWAYS MET FROM THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT	1240
3.—DISTRIBUTION OF RAILWAYS' SURPLUS	1241
4.—STATEMENT OF THE WORKS EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS	1241
A RAILWAYS DEPRECIATION RESERVE FUND	1242
B.—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND	1242
C.—RAILWAY DEVELOPMENT FUND	1243
D.—RAILWAY PENSION FUND	1243

r. Statement of the Revenue of the Central Government from Railway

(In thousands of rupees)

HEADS OF REVENUE	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Increase (+) Decrease (—) as compared with Budget 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
M—RAILWAYS—REVENUE					
LXIV-A & LXV-A—Indian Railways— Revenue Receipts—					
Passenger Earnings—					
Upper	29,82,67	29,50,00	31,75,00	+2,25,00	35,00,00
Third	235,27,40	243,50,00	250,50,00	+7,00,00	267,50,00
TOTAL—Passenger Earnings	265,10,07	273,00,00	282,25,00	+9,25,00	302,50,00
Other Coaching Earnings	45,05,69	47,50,00	49,00,00	1,50,00	52,25,00
Goods Earnings	562,78,89	600,00,00	590,00,00	—10,00,00	635,50,00
Sundry Other Earnings	27,96,16	30,50,00	32,50,00	+2,00,00	34,50,00
TOTAL—EARNINGS.	900,90,81	951,00,00	953,75,00	+2,75,00	1024,75,00**
Suspense	—2,06,39	—42,00,00	—3,20,00	1,00,00	—2,75,00
Gross Receipts of Indian Railways	898,84,42	946,80,00	950,55,00	+3,75,00	10,22,00,00**
LXIV-B & LXV-B—Other Miscellaneous Receipts—					
Miscellaneous receipts.]	19,59	17,67	15,87	—1,80	15,47
LXVI—Subsidised Companies.					
Government share of surplus profits etc.	3,31	34,38	4,86	—29,52	28,41
LXVII—Transfer from Railway Revenue Reserved Fund
TOTAL—RECEIPTS	899,07,32	947,32,05	950,75,73	+3,43,68	10,22,43,88
*Includes earnings of worked lines.	[61,96	[63,51	[61,70	—1,81	60,48

**Reduced by Rs. 13.00 crores (Rs. 9.00 crores for Passenger Earnings, 0.50 crore for Other Coaching Earnings and 3.50 crores for Goods Earnings) consequent on the withdrawal of proposals in respect of Third Class fares, met from tickets, parcel rates and freight rates on food grains etc. subsequently.

2. Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts. 1968-69	Budget Estimate, 19 69-70	Revised Estimate, 1969-70	Increase(+) / Decrease(-) as compared with Budget 1969-70	Budget Estimate, 1970-71.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
M—RAILWAYS—EXPENDITURE					
83-A & 84-A—Working Expenses—					
(i) Ordinary Working Expenses	*636,78,45	665,34,92	*683,04,35	+17,69,43	700,99,16
(ii) Appropriation to Depreciation Reserve Fund	95,00,00	95,00,00	95,00,00	..	100,00,00
(iii) Appropriation to Pension Fund	9,90,00	9,90,00	9,90,00	..	14,85,00
83-C—Payments to Worked Lines—					
(i) Net earnings	23,04	14,91	16,24	+1,33	15,23
(ii) Rebate etc.	1,79	1,79	1,79	..	1,79
*83-B & 84-B—Other Miscellaneous Expenditure	6,66,91	7,56,85	7,84,57	+27,72	7,95,34
85.—Payments to General Revenues—					
(a) Dividend to General Revenues	150,66,60	159,01,19	158,43,72	—57,47	167,09,64
(b) Deduct—Amount met from Revenue Reserve Fund	—7,85,67	..	—12,55,37	—12,55,37	..
86.—Subsidised Companies—					
Land
Subsidy	—45	88	43	—45	..
88.—Open Lines Works—					
Revenue	7,66,65	8,40,00	8,90,00	+50,00	9,00,00
87.—Appropriation from Railway Surplus—					
(i) Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund	3,63,13
(ii) Appropriation to Railway Development Fund	1,91,51	..	—1,91,51	18,74,59**
(ip) Appropriation to Railway Depreciation Reserve Fund
TOTAL—EXPENDITURE	899,07,32	947,32,05	950,75,73	+3,43,68	10,22,43,88
*Includes—					
Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	10,00	10,00	10,00	..	15,00

*Also takes note of the transactions in the Contingency Fund.

3. Distribution of Railway's Surplus

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Surplus	1,91,51	..	22,37,72
Railway Development Fund	1,91,51	..	18,74,59
Railway Revenue Reserve Fund	3,63,13
Railway Depreciation Reserve Fund

4. Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Increase(+) / Decrease(—) as compared with Budget 1969-70	Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MM—Capital—					
Railway Capital not met from Revenue—					
131 & 132—Construction of Railways—	121,46,04	132,60,00	124,85,74	—7,74,26	150,00,00
T—Deposits and advances—					
Works expenditure met from Railway Funds—					
Depreciation Reserve Fund	80,39,07	95,00,00	89,54,90	—5,45,10	100,00,00
Development Fund	16,59,13	19,00,00	19,99,71	+99,71	21,00,00
RA—Revenue—					
88—Open Line Works— Revenue	7,66,65	84,00,00	8,90,00	+50,00	9,00,00
GRAND TOTAL	226,10,89	255,00,00	243,30,35	—11,69,65	280,00,00

*Also takes note of the transactions in the Contingency Fund.

A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
*Opening Balance	** 77,47.54	86,00.69	98,37.21	110,81.80	Appropriation from Depreciation Reserve Fund	80,39.07	95,00.00	89,54.90	100,00.00
Appropriation to De- preciation Reserve Fund	(a) 97,39.90	(b) 97,45.21	(c) 97,47.93	(d) 102,50.69					
Interest on Deprecia- tion Reserve Fund	@ 3,68.55	3,83.83	@ 4,51.56	5,06.56	Closing Balance	92,16.92	92,29.73	110,81.80	118,39.05
TOTAL †	78,55.99	187,29.73	200,36.70	218,39.05	TOTAL	178,55.99	187,29.73	200,36.70	218,39.05

* Includes 7,83.93 (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

** Excludes 29.61 due to write back of the expenditure on restoration of Bhagalpur-Mandar Hill from Development Fund, and 1,97.40 transferred from Capital on Eastern and Southern Railways.

† Includes 20.29 credits anticipated to be transferred from capital on Southern Railway.

@ Excludes on account of adjustment of arrear interest 5.23 in 1968-69 and 1.72 in 1969-70.

(a) Includes 2,39.90 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account— (1,20.18) I. C. F. (44.56) D.L.W. (75.16) C. L. W.

(b) .. 2,45.21 (1,22.94) .. (45.27) (77.00)

(c) .. 2,47.93 (1,22.70) .. (45.39) (79.84)

(d) .. 2,50.70 (1,24.71) .. (45.98) (80.00)

B—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
*Opening Balance	(a) 12,19.62	(a) 1,28.52	(a) 13,49.18	(a) 131.45	Appropriation from Railway Revenue Reserve Fund—				
Appropriation to Rail- way Revenue Reserve Fund					(i) For Amortising Capital	1,18.14	128.26	33.37	..
(i) Revenue Surplus etc.	13,63.13	(ii) For making good the shortfall in Net Revenue for payment of full dividend	7,85.67	..	12,55.37	..
(ii) Loan from Cen- tral Revenues.	9,84.46	..	(iii) Repayment of Loans	21.81	3,28.15
					(iv) Interest on loan	37.08
Interest on Railway Revenue Reserve Fund.	(b) 33.37	(c) 4.94	(d) 8.36	(e) 2.10	Closing Balance	(a) 3,49.18	(a) 1,05.20	(a) 31.45	(a) 31.45
TOTAL	12,52.99	1,33.46	13,42.00	3,96.58	TOTAL	12,52.99	1,33.46	13,42.00	3,96.68

* Includes 17,229 lakhs (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

† Excludes on account of adjustment of arrear interest of 36 in 1968-69 and 27 in 1969-70.

(a) Includes 31.45 lakhs on account of investments in shares of and loans to Branch Line Companies.

(b) .. 1.56 lakhs on account of interest and dividend etc., on investments.

(c) .. 1.26

(d) .. 1.28

(e) .. 1.28

C—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†4,44,86	..	1,26,30	..	Appropriation from Development Fund	16,59,13	19,00,00	19,99,71	21,00,00
Appropriation to De- velopment Fund—									
(i) Revenue Surplus	..	1,91,51	..	18,74,59	Repayment of Loans
(ii) Loans from Central Revenues	14,06,20	18,68,02	20,23,88	4,36	Interest on loans	**79,53	1,59,53	1,56,56	2,15,72
Interest on Develop- ment Fund	13,90	..	6,09	4,77	Closing Balance	1,26,30
TOTAL	18,64,96	20,59,53	21,56,27	23,15,72	TOTAL	18,64,96	20,59,53	21,56,27	23,15,72

†Includes 398.94 lakhs due to transfer of certain works (Bhagalpur-Mandar Hill on Eastern, C.T.C. on Northeast Frontier and Gorakhpur Katihar Microwave Communications on Northeastern Railways) now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital.

*Adjustment of arrear interest of (+) 5 in 1968-69 and (—6) 1969-70.

**Adjustment of arrear interest (—3) in 1968-69 and (—37) in 1969-70.

D—RAILWAY PENSION FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71		Accounts, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	Revised Estimate, 1969-70	Budget Estimate, 1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†56,59,03	62,54,94	†73,14,02	81,79,41	Appropriation from Pension Fund	6,36,65	6,29,11	7,66,12	7,89,18
Appropriation to Pen- sion Fund	††(a) 15,03,41	(b) 10,30,00	(c) **12,97,01	(d) 15,50,00					
Interest on Pension Fund	*2,64,52	2,84,04	3,34,50	3,86,90	Closing Balance	67,90,31	69,39,87	81,79,41	93,27,13
TOTAL	74,26,96	75,68,98	89,45,53	101,16,31	TOTAL	74,26,96	75,68,98	89,45,53	101,16,31

†Includes 4,21.59 lakhs in 1968-69 and 523.71 lakhs proposed in 1969-70 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes 473.41 lakhs in 1968-69 and 267.01 lakhs proposed in 1969-70 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits during the course of the respective financial years.

*Estimates on account of adjustment of arrear interest of 48 in 1968-69 and 122 in 1969-70.

(a) Includes	30,00	debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW	(10,52)	ICF	(12,88)	DLW	(6,60)
(b) „	30,00	„	„	„	„	„	„
(c) „	30,00	„	„	„	„	„	„
(d) „	50,00	„	„	„	„	„	„

